

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 03 सितंबर 2022

प्रश्न -1

राष्ट्रीय खेल दिवस (भारत) कब मनाया गया?

- A) 31 अगस्त
- B) 29 अगस्त
- C) 26 अगस्त
- D) 25 अगस्त

सही उत्तर: B

हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है।

प्रश्न -2

तटीय सफाई अभियान को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट शुरू की गई थी?

- A) swachbharat.org
- B) swachhjal.org
- C) swachhnadi.org
- D) swachhsagar.org

सही उत्तर: D

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चल रहे तटीय सफाई अभियान को और बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित वेबसाइट www.swachhsagar.org लॉन्च की है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 03 सितंबर 2022

प्रश्न -3

निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया?

- A) गुजरात
- B) हिमाचल प्रदेश
- C) मध्य प्रदेश
- D) उत्तराखंड

सही उत्तर: A

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित किया।

प्रश्न -4

निम्नलिखित में से किसने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला?

- A) धनंजय वाई. चंद्रचूड़
- B) श्रीपति रवींद्र भाटी
- C) उदय उमेश ललित
- D) विनीत सरणि

सही उत्तर: C

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान उन्हें शपथ दिलाई।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 03 सितंबर 2022

प्रश्न -5

गुजरात के निम्नलिखित में से किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है?

- A) वडोदरा
- B) सूरत
- C) राजकोट
- D) अहमदाबाद

सही उत्तर: D

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी पर पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया।

प्रश्न -6

निम्नलिखित में से किसने BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता?

- A) अकाने यामागुची
- B) चेन युफेई
- C) नोजोमी ओकुहारा
- D) ताई त्जु-यिंग

सही उत्तर: A

जापान की अकाने यामागुची ने चीन की चेन युफेई को 21-12, 10-21, 21-14 से हराकर टोक्यो में अपने घरेलू दर्शकों के सामने अपना बैडमिंटन महिला विश्व खिताब बरकरार रखा।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 03 सितंबर 2022

प्रश्न -7

निम्नलिखित में से किसने BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता?

- A) विक्टर एक्सेलसन
- B) ली जी जिया
- C) ली चोंग वेइ
- D) केंटो मोमोटा

सही उत्तर: A

डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन ने टोक्यो, जापान में फाइनल में थाईलैंड के कुनलावुत विटिडसर्न को 21-5, 21-16 से हराकर 2022 BWF विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता।

प्रश्न -8

उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है?

- A) लखनऊ
- B) कानपुर
- C) कन्नौज
- D) अयोध्या

सही उत्तर: C

उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 03 सितंबर 2022

प्रश्न -9

नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है?

- A) वाराणसी
- B) पुरी
- C) हरिद्वार
- D) अयोध्या

सही उत्तर: C

नीति आयोग ने उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार को 3 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन के साथ पांच मानकों पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है।

प्रश्न -10

निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर सभी रूपों में 100 मैच खेलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया है?

- A) हार्दिक पांड्या
- B) रवींद्र जडेजा
- C) विराट कोहली
- D) शिखर धवन

सही उत्तर: C

विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में खेल के तीनों प्रारूपों में 100-100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय और दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं।